

प्रेस नोट दिनांक 05.03.2023 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ सिद्धार्थनगर के निर्देशन में शिवधारी प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 05.03.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट सम्बन्धित फौ0वादसं0 1909/020 धारा419,420,467,468,471भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारंटी शिवपूजन पुत्र श्याम लाल गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण -

1. शिवपूजन पुत्र श्याम लाल निवासी रुद्रपुर थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 वीरेंद्र पासवान थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. का0 शनि यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 05-03-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत दुष्कर्म, पाक्सों आदि अपराधों में संलिप्त 03 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 05-03-2023 को दुष्कर्म, पाक्सों आदि अपराधों में संलिप्त 03 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना ढेबरूआ व मिश्रौलिया पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

- 1- जीतराम गौतम उर्फ जीतू पुत्र सिद्धराम उम्र 28 वर्ष थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- लवकुश पुत्र नन्दलाल उम्र 27 वर्ष निवासी उड़वलिया (सोनवरसा) थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- बब्लू पुत्र नारायण उम्र 25 वर्ष निवासी उड़वलिया (सोनवरसा) थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 5.03.2022 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड टीम थाना चिल्हिया द्वारा रेलवे स्टेशन चिल्हिया/ कंदवा बाजार आदि स्थानों पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओ, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो तथा साइबर अपराध की रोकथाम के बारे जानकारी दी गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं , सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शिवधारी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 05.03.2022 को उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह व महिला कांस्टेबल पूनम यादव व महिला कांस्टेबल शिखा खरवार द्वारा रेलवे स्टेशन चिल्हिया/ कंदवा बाजार/गौरा मोड़ में बालिकाओं एवम महिलाओं को एकत्रित कर उनके सम्मान एवं स्वालंबन मिशन शक्ति अभियान के दृष्टिगत सरकार द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओ, सुरक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य एवं

महिला सम्बन्धी अधिकारो तथा साइबर अपराध की रोकथाम के बारे जानकारी दी गयी और शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन न0 -112,181,1076,1090,1098,102,108 आदि के बारे मे भी बताया गया तथा 1090 पम्पलेट का वितरण किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 05.03.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ड्रोन कैमरे की निगरानी में मनाया जाएगा होली/शब-ए-बारात का त्यौहार ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आगामी त्यौहार होलिका दहन, होली व शब-ए-बारात को शान्तिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाये जाने के दृष्टिगत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.03.2023 को अपने अपने थानाक्षेत्र में फ्लैग मार्च कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने व हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाने की अपील करते हुए दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च किया गया ।